



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 कार्तिक 1945 (श0)

(सं0 पटना 931) पटना, मंगलवार, 31 अक्टूबर 2023

विधि विभाग

अधिसूचना

31 अक्टूबर 2023

एस0ओ0 356 दिनांक 31 अक्टूबर 2023—जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक-4495/विधि, दिनांक-04.07.2023 एवं पत्रांक-5943/विधि, दिनांक-04.09.2023 के अनुसरण में रोहतास (सासाराम) जिला के लिये लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-32(1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप रोहतास (सासाराम) जिला अन्तर्गत लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित, ए0डी0जे0-VI के अनन्य विशेष न्यायालय में वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्रीमती जनक राज किशोरी, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-1041/2000 है, को पद ग्रहण की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. इस अधिसूचना के निर्गत होने के साथ ही प्रसंगाधीन अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
3. संबंधित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का अनुमान्य दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा लेकिन उन्हें कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा।
4. संबंधित विशेष लोक अभियोजक प्रत्येक माह निष्पादित मामलों से संबंधित प्रतिवेदन एवं कारणों सहित लंबित मामलों से संबंधित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।
5. संबंधित विशेष लोक अभियोजक यदि लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील/किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत है, तो उन्हें एक सप्ताह के अन्दर अपना विकल्प बताना होगा कि वे किस

पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं। इन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी एक पद के लिए ही दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा।

(संचिका सं०-सी०/ए०एस०-50-39/2014-8381/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम मंडल,

सरकार के अवर सचिव ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण)931-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>